पूरे

पिष्ट

फीर

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1) read with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of PTC Industries Limited will be held on Friday, February 12, 2021 at 03:30 P.M through video – conferencing facility to, inter-alia, consider and approve, the unaudited financial result for the quarter and nine months ended on

Further this information is also available on the website of the Company ie. www.ptcil.com and website of the Stock exchange ie. www.bseindia.com.

For PTC Industries Limited

Place: Lucknow Date: 20.01.2021 (Smita Agarwal) Director and CFO

गुरुवार, 28 जनवरी, 2021 को 3.00 बजे अप. में कम्प के पंजीकृत कार्यालयः 122, 1ला तल, विनोबापुरी लाजपत नगर II, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2029 की समाप्त तीसरी तिमाही (क्यू 3) तथा नौमाही के अनंकेखित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।

बोर्ड बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.grovyindia.com पर निवेशक जोन टैब-कॉपॅरिट एनाउन्समेंट्स शीर्ष के अंतर्गत तथा एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेश सं हस्ता./ (निशित जालान) पूर्ण-कालिक निदेशक एवं सीर्वको

बिक्री

उदघोषणा

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 20.01.2021 DIN: 02964239 PHINNED

पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड पंजी. कार्याः 232-बी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020

सीआईपुनः L40300DL1995PLC066923 फोनः 011-33550700; फैक्सः 011-26321894 ईमेलः investorcare@polymedicure.com

वेंबसाइटः www.polymedicure.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 27 जनवरी, 2021 को अन्य बातों के साथ आयोजित की जाएगी

- 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन हेतु।
- किसी भी अन्य मामलों को संचालित करने के लिए जो बोर्ड उपयुक्त समझ सकता है। कृते पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 20.01.2021

हस्ता./-अविनाश चंद्रा कंपनी सचिव

मारु कि जिम उसव

नई

कॉरा केंद्र H

कहा

इन्टेक कैपिटल लिमिट्रेड मांग सूचना का प्रकाञ्र

भाग सूचना का प्रकाशन विषयं परिसाधितयों के प्रतिभृतिकरण एवं जुनिर्माण तथा । प्रवेशन अधिनियम 2002 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 1) मैं. एसएसआरबीओएसआर इंडस्ट्रीज (ऋणधारक) हारा उसके संजय चीहान, 144, उद्योग केन्द्र-1, ईकोटेक- III, गीतम बुध न उत्तर प्रदेश, भारत-201301, साथ हीं: बी-3270, रामा रोह, इंडस्ट्रिक्टि ु उत्तर, भारत-201301, साथ हीं: बी-32/70, रामा रोह, इंडस्ट्रिट्रिट्टी-110015, 2) श्री संजय चौहान (गारन्टर), बी-312, कल्या कुंज, सेक्टर 49, नोएडा, उत्तर प्रदेश, अ) श्रीमती मीनाक्षी चौहान (गारन्टर), बी-312, कल्या कुंज, सेक्टर 49, नोएडा, उत्तर प्रदेश, को स्पीड पोस्ट हारा 12.01.201 विषय: इन्टेक कैपिटल लिमिटेड में ऋण खाता सं. EN 160005592, तिथि 30.4.2015

100003352, RII4 50.4.2015 आप ने ऋण को वापस लौटाने में चूक की है तथा इसीलिए इन्टेक कै में प्रबंधित आपकी ऋणस्त्राताओं को 30.12.2017 को गैर- प्रचा ्रप्रभावन जानमा व्यवसाया का २०.१२.२८१७ का ग्रह प्रभा (स्पर्नीए) मोलिक किया गया है तथा 31.12.2020 को रू. 58,05 अन्त्रावन लाख पांच हजार दो सौ अन्त्रानवे मात्र) की राशि बकाया है अन्द्रांवन लाख भाष हजार दा सा अन्द्रानव मात्र) का साश वकाया ह इन्टेक कैपिटल लि. ने 12.01.2021 को अधिनियम के अंतर्गह 7.1.2021 जारी कर आपको 31.12.2020 को रू. 58,05,298/- (इ लाख पांच हजार दो सी अन्द्रानवे मात्र) की राशि वापस लीटाने का वि लाख पांच हजार दो सी अन्ठानवे मात्र) की राशि वापस लीटाने का नि आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथ से 60 दिने 58,05,298/- (रुपये अन्ठावन लाख पांच हजार दो सी अन्ठानदे मात्र भूगतान करें ज़िसमें विफल होने पर इन्टेक कैपिटल लिपिटेड यहां नी दी गई प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध प्रतिभृत हित के प्रवर्तन के अ अधिकारों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। यह सूचना इन्टेक कैति को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार उपचार के प्रति चुयोहर रहित हैं। परिसम्पत्तियों जिसमें प्रतिभृति हित निर्मित है, का विशिष्ट विदरण नीचे हाइपोथेकेटेड परिसम्पत्तियाँ: 1) 62.5 केवीए थ्री फेज टीएपटीएल आह डीजल जनरेटर, इंजिन मॉडल 881ES, 3 सिलिण्डर, 80 बीएचपी, बिजल जनरेटर, इंजिन मॉडल 881ES, 3 सिलिण्डर, 80 बीएचपी, अल्टर्नेटर, 415 बोल्ट, 50 के साथ युक्त है। 2) मोटर, पुल्ली तथा बेल्ट हेवी ड्यूटी मॉडल (स्लोटर साइज 75) के साथ तीन स्लोटिंग एवं एक डायज। 3) काउन्टर के साथ इलेक्ट्रो- मैग्नेटिक क्लच एवं ब्रेक के सा ाचना २) कार्यस्य क्र साथ इताबद्धाः नागाटक वताच ५व श्रक क साध मॉडल कर्टिन पंचिंग एवं क्रीजिंग मशीन 48 "x 68 (प्लेटेन साइज 52"

मी. एसएसआरबीओएसआर इंडस्ट्रीज, 144, उद्योग केन्द्र-1, ईकोटेक- III नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत-201301 में स्थापित है। तिथि: 20.01.2021 स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत इन्टेक है

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेवॉन कम्पाउण्ड, वेराव . जाखा कार्यालय : तीमरी मंजिल, कैपिटल हाउस बिल्डिंग, 2 अधिकृत प्राधिकारी : गिरिजेश मौर्य, मोबाइल श्री तुंगध्वज कौशिक, मोबाइल : 09873662400, श्री पंकज रा

'परिशिष्ट-IV-A'' अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिब्र

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अधिनियम, 2002 की विवर्षय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं को बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रॉ) एवं जमानती(यॉ) को पास बंधक/प्रभारित निम्नलिखित अचल सम्पत्तियाँ, जिस पर आदित्य बिरला हार्व अधिकृत प्राधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा कर लिया गया था, की बिक्री आदित्य लेनदार के कर्जदारों तथा जमानती(याँ) नामतः श्री प्रियाशु सोनी, श्रीमती सं

ज्वेलसं की ओर बकाया 26 अक्टूबर, 2020 तक रु. 27.69,640.46 (रुपये बालीस एवं छियालीस पैसे मात्र) एवं वसुली की तिथि तक भावी ब्याज एवं 'जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"

आरक्षित मृत्य रु. 39.45,240.00 (रुपये उनतालीस लाख पैतालीस हजार व राशि रु. 3,94,524/- (रुपये तीन लाख चौरानवे हजार पांच सौ चौबोर अन्तिम तिथि 15 फरवरी, 2021 है। अचल सम्पत्ति का विवरण

आरसी सं. 593/2018

कार्यालय, ऋण वसूली अधिकारी-। ऋण वसूली न्यायाधिकरण — ॥।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, दिनांकित : 29-12-2020 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा बैंक ऑफ इंडिया

सीडी सं. 1 : मैसर्स प्रिन्स डायमंड्स, स्वामी — प्रतीक अग्रवाल, 2578—79, द्वितीय तल, गली नंबर 5, बीडनपुरा, करोल बाग, नई

ादल्ला—110005 अन्य पता : 3310, गली नंबर 26, मू तल, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 अन्य पता : 271, तृतीय तल, बी ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 अन्य पता : मकान नंबर 5, निकट वैदिक कन्या इंटर कालेज, मोहल्ला— कायस्थान, चांदपुर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश—246701

अन्य पता : 53, नवयुग नााकट, ावजनार, उत्तर अपरा 240/01 सीडी सं. 2 : निशित जैन, 271, तृतीय तल, बी ब्लॉक, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

सोडों सं. 2: निश्चत जन, 271, तृताय तल, बा ब्लाक, सरस्वता ।वहार, पातमपुरा, नई ।वल्ला—110034 जबकि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।।।, दिल्ली द्वारा औ.ए. सं. 885/2016/डीआरटी—।।। में आहरित वसूली जबाक आप पाठासान आधकारा, ऋण वसूला न्यायाधिकरण- III, Ideell द्वारा आ.ए. स. ४४५/ २०१६/ डाआरटा- III में आहारत वसूला प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रू. 1,18,52,043.01 (रूपए एक करोड़ अठारह लाख बावन हजार तेतालीस तथा पैसे एक मात्र) की राशि प्रमाणपत्र के अनुसार 08-12-2016 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा लागत, खर्चों सहित चुकाने में असफल रहे हैं। शाश प्रमाणपत्र क अनुसार 08—12—2016 स 12 प्रातशत वापक दूर पर साधारण ब्याज तथा लागत, खचा साहत युकान न असफल रह ह। और जबकि अघोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है।

आर जबाक अधाहस्ताक्षर। न उवत वसूला प्रमाणपत्र क समाधान म नाम दा गृह अनुसूचा म वाणत सम्पात्त का १९४० करन का आदश । प्या है। एतदहारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थ्यन आदेश नहीं होने की स्थिति में, उक्त सम्पत्ति 24-02-2021 को अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 प्रविद्यार पूजा पा आता है। के कहर स्थान आदश नहां होने का एथात में, उक्त सम्पाद्ध 24—02—2021 का अप. 3.00 बजें से अप. 4.00 बजें के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने की स्थिति में स्वतः विस्तार क्लॉज सहित, यदि अपेक्षित है) ई—नीलामी द्वारा बज के बाब (समाप्त स पूव आतम 5 मिनट में कोई बाला आने का रिष्णात में स्वतः विस्तार वेलाज साहत, याद अपक्षित है) ई—नालामा - द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स सी1इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज—2, बिल्डिंग नंबर 301, गुडगांव, हरियाणा बचा आर्गा तथा बालाचाग तथा प्रचाला गत्तत त्याञ्चाच्या प्रा. ाल., उधागा विठार, फण-८, विश्वलंग गबर उठा, गुण्याब, ठारवाणा (मारत) फोन : +91 7291981124/25/26 वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक

किसी संदेह निवारण हेतु श्री विनोद चौहान मोबाइल नंबर 9813887931 ई—मेल : support@bankeauctions.com से सम्पर्क करें। अतिरिक्त विवरण के लिए श्री आर. के जैन मोबाइल नंबर 9557539889 से सम्पर्क करें।

आतारका 199रण के 10ए आ आर. के. जान भावाइल भवर 3537533868 रा सन्त्रका कर । उपरोक्त नामक प्रतिवादी की जिस सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी, उसका वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति की देयताओं . उपराक्त नामक प्रातवादा का ाजस सम्पात्त का ाबक्रा का जाएगा, उसका वणन नाच अनुसूचा म ाकया गया ह तथा तथा जब्ती दावों, जिनका अभी तक अभिनिश्चयन किया गया है, अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने वर्णित अनुसार हैं।

तथा जबा। बावा, ाजनका जमा तक आमानरचयन ाकथा गया है, अनुसूचा न प्रत्यक लाट के सामन बागत अनुसार है। बिक्री से संबंधित कोई ड्रयूटी करने बाला कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, बिका स सबाधत काइ ड्युटा करन वाला काइ मा आधकारा अथवा अन्य व्याक्त प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप स सम्पात्त क 1लए बाला नहां लगाएगा, बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कुरेगा। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की दितीय बचा गई राम्पाता न कार् १६६१ जाणात गरा। करणा जन्यमा जाणात करण का अवात गरा करणा। वर १९५०। अनुसूची में निर्घारित शर्तों और उनके तहत् बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।

अनुसूचा मामबारत राता आर उनक तहत बनाए गए गमबना तथा आरा गम्भालाखत राता क तहत होगा। संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। सम्पित्तयों का वर्णन, सुरिक्षत मूल्य और ईएमडी निम्नानुसार हैं

	क्र. सं.	13/11/8:	् अस्ति। विश्वाति ।
	1.	कॉमर्शियल प्राप्त क्या सम्पत्ति विवरण	
		सम्पत्ति विवरण कॉमशिंयल प्रॉपर्टी प्राइवेट नंबर ७ (उत्तरी हिस्सा), तृतीय तल, छत ∕ टेरेस का अधिकार नहीं, जो बीडनपुरा, करोल बाग वर्ष रिक्ति	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
3			
		का अधिकार नहीं, वार्ड नंबर 16 खुमारा नंबर 3254 (पूर्वी हिस्सा), गली नंबर 28 की ओर फून (नेर्म)	
1		का अधिकार नहीं, न्युनिसिपल नंबर 3254 (पूर्वी हिस्सा), गली नंबर 28 की ओर, छत / टेरेस बाग, नई दिल्ली–110005 का हिस्सा है।	
1.		आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगी: म से कम क 50,000 (र नहीं बेची जाएंगी:	ईएमडी : रू. 1,87,200 /-
15	पाला क	में भी किस रेंग हैं। १००० १ १	

2. बोली कम से कम रू. 50,000 /— (रू. पवास हजार मात्र) बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने

का रचात प्राचारा प्राचाना पावारा का आकृषा। 3. उच्चतम बोलीदाता को सफल उच्चतम बोलीदाता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार /स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का

3. उच्चतम बालादाता का सफल उच्चतम बालादाता धाषत किया जाएगा। उच्चतम बाला का अस्वाकार /स्थाकार करना अधाहस्ताक्षरा का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है। 4. उपरिवर्णित ईएमडी वसूली अधिकारी-।, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।।।, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के रूप में 4. उपारपाणात रूपम्बा प्रमुखा आधकारान ।, ऋण वसूला न्यायाधकरणन ।।।, ।दल्ला क पक्ष म डाडा/ 22-02-2021 तक जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी ई-नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।

22-02-2021 तक जमा का जाएगा। उसक बाद जमा का गई इंस्मुख इन्मालामा में मांग लग हतु स्वाकाय गहा होगा। 5. पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपनी स्वयं की ओर से अथवा अपने 5. पन काड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण का प्रात, इ⊤मल आइडा, माबाइल नवर तथा धावणा याद व अपना स्पय का आर त अथपा अपन प्रधानों की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में, उन्हें प्राधिकारपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चूक करने पर उनकी बोली अस्वीकार कर दी अवाना का आर त बाला व रह है। अतारक्षा नामल न, अन्ह आवक्षारपत्र अरपुध करना होगा धबा वूक करन पर अनका बाला अरपाकार कर वा जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व / अटॉर्नी जाएगा। कन्ममा क मानल म कन्ममा क बाब सबस्या द्वारा पारत अस्ताव का आत या काई अन्य वस्तावक, जा कन्ममा क आतामावरव/ अटामा की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और ऐसी जमा की रसीद / प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता या सीएव बैंक को ई—मेल द्वारा या अन्य प्रकार से का पुष्ट करता हा, जमा करना हागा आर एसा जमा का रसाय / आव्ययमा उपत तथा अवाधा या चाएव वय का रूपा छाच था. उक्त तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी- I, डीआरटी- III, नई दिल्ली को दी जाएगी.।

| उर्वत तिथि तक प्राप्त हा जाना चाहिए आर उसका हाड कामा वसूला आभकास—।, डाआरटा—।।।, नह १५००। का वा जाएगा। 6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 o. तकत बातायाता का जनना जातन वाला का 20 जातता जात, वर्गांक जाती होगी। बजे तक उक्त खाते में ऊपर पैरा में वर्णित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी।

बज तक उक्त खात म ऊपर परा भ वागत ।ववरण क अनुसार जमा करना हागा। 7. सफल बोलीदाता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्प्रत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके 15वा 1दन शववार था अवकाश ह, तब 15व 1दन क बाद पहल बक काथ 1दवस का ऊपर परा 4 म ानधारत विद्य म जेमा करना होगा। इसक अतिरिक्त सफल बोलीदाता को रू. 1,000/— तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/— से अधिक पर 1 प्रतिशत की, दर पर निरोध शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी—III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमॉड ड्राफ्ट के रूप में वसूली अधिकारी— I, डीआरटी—III, दिल्ली के पास जमा

करना हागा। 8. संमावित बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण 18-02-2021 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक कर सकते हैं। 9. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, 9. निधारत अवाध म मुगतान म यूक का ास्थात म, बालाबाता द्वारा पहल जना का गई सारा, बाद जबाहरसाबारा द्वारा जनपुत्रव बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब कर ली जाएगी और चूककर्ता सफल बोलीदाता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा

10. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

10. तमारा प्रमाणका आसा ह जाहा ह पाना जा ह आसार अर का जा रहा ह। 11. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाई जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अखीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी स्थिगत करने का अधिकार सुरक्षित है

बताए, नालामा स्थागत करन का आधकार सुराक्षत ह। 12. सम्पत्तियों के संबंध में राजस्व/भार अथवा दावे का कोई विवरण इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में नहीं है। तथापि, संमावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वयं के हित में, ईएमडी जमा करने से पहले, बिजली/पानी/भवन कर बिलों अथवा किसी अन्य भार इत्यादि क बकाया क सबध में अपना आर स सवकता के साथ आद कर ल । 13. असफल बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि को अथवा पूर्व एक आवेदन

निर्धारित / अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी। 14. सीएच बैंक को इसमें दिए गए विकास

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM FINANCIAL EXPRESS

PHDMED

POLY MEDICURE LIMITED

Regd. Off.: 232-B, Third Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 CIN: L40300DL1995PLC066923 Tel: 011-33550700, Fax: 011-26321894

Email: investorcare@polymedicure.com Website: www.polymedicure.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 27th January, 2021 inter alia

- To consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the Third quarter and nine months ended on 31st December, 2020.
- To transact any other matter which the Board may deem fit.

For Poly Medicure Limited

Place: New Delhi Avinash Chandra Date: 20.01.2021 **Company Secretary** Regd. Office:

S

EXTRACTS

The second second	Sr. No.	
1707	1 .	Total Income
Sale II	2	Net Profit/(Li (before Tax,
	3	Net Profit/ (I (after Excep
	4	Net Profit/(L (after Excep
	5	Total Comp [(Comprisin and Other C
	6	Equity share
	7	Reserves (e Audited Bal
	8	Earnings Pe Basic and
		A THE PARTY OF THE

Regulation the Qua

The above

Place : Mumbai Date : 20-January

JSW Is

(Form

Registered Office: Monnet Marg, Mandir Hasau 71250 E-mail: isc_jispl@aionjs

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOL-CEMBER, 2020

nt per share data)

SI.		Quarter ende		ended	Year Ended
No.		31.12.2020	30.09,2020	12.2019	31.03.2020
		Unaudited	Unaudited	audited	Audited
1	Total revenue from operations	1163.56	957.84	2034.19	2664.44
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	经清洁			MATERIAL PROPERTY.
	Exceptional and/or Extraordinary items)	29.81	(62.06)	387.52)	(492.00)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			BET.	September 1
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	29.81	(62.06)	387.52)	(492.00)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	00.04	(00.00)		1100 001
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	29.81	(62.06)	387.52	(492.00)
5	Total Comprehensive Income for the				
	period [Comprising Profit / (Loss) for the			and a	100377
	period (after tax) and Other	30.22	(61.47)	400.05	(521.33)
	Comprehensive Income (after tax)]	469.55	469.55	469.5	
6	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve)		400.00	409.0	409.00
1	as shown in the Audited Balance Sheet				
1	of the previous year			1000	177.27
0	Earnings Per Share (Face value of			1	
0	Rs. 10/- each) (for continuing and	S SHOW			
1	discontinued operations) -	1			
	Basic (Rs.)	0.63	(1.32)	(8.25	(10.48
1	Diluted (Rs.)	0.30	(1.32)	(8.2	(10.48

Notes:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Finan and Disclooure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter an aionijsw.in) and Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and Natic b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and ones have carried

oducts Limited

out a Limited Review of the results for the quarter ended 31st Dece

Energy Limited) thy Dhakshana time Director DIN: 03298700

Date: 19.01.2021

www.Intinfotech.com

ubro any

PUBLIC ANNUITY SHAREHOLDERS OF

Recea, Delhi-110052

PH: 011- www.mindafinance.co.in

THE EQUITY SHAREADY BEEN DELISTED FROM BSE LIMITED, THE OWERE LISTED AND HENCE ARE NO LONGER TRADE TO EXIT.

AS A SHAREHOLYOU SHALL NO LONGER BE ABLE TO SELL THE SHARREFORE IT WOULD BE DIFFICULT TO DISPOSE OFF YO

All the remaining Pinformed that subsequent to the successful completion of delistingle provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delismendments thereto, wherein the exit offer was made by the Promot - (Rupees One Thousand Nine Hundred and Fifty Only) to the publ

The BSE Limited viddelisted the company from the exchange with effect from 20th Janu

As per SEBI (Delistine BSE Limited have stipulated that the acquirer shall provide an exiteholders of the Company who did not or were unable to participate entioned processes, now have a last and final opportunity to sell the Thousand Nine Hundred and Fifty Only) per share commencing Compliance with relevant provisions of SEBI (Delisting of equity sl

The Form of Acceptanares at the exit price to the "Acquirer" is being shortly dispatched to in the delisting process or who unsuccessfully tendered their share

Subject to any Regulo the shareholders who will validly tender their shares to the Acquire

TENDERING PROC

- Shareholdersold equity shares in physical form and wish to tender their shares y filled in, Original Physical Share Certificate accompanied with B to the Promoter/Acquirer at its address Minda Investments Limited
- Shareholders holding equity shares in dematerialized form, will be requireng with relevant authorizations, if applicable, alongwith photo covery instructions in "Off-Market" mode duly acknowledged by the Promoter/ Acquirer at its address Minda Investments Limited

Depository Partici **Depository Partici** Client Identificatio Depository Name Limited **Depository Accoun**

Place: Delhi

Date: 21-01-2021

For any query relatir to tender or send their complete document(s) to the Promoter/ Acquir Monday to Friday between 10:00 A.M. to 5:00

I Namber Fox			
0124- 2291621/622	N.A.		

For MINDA FINANCE LIMITED

LALIT KHUBCHANDANI